



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23]

नई दिल्ली, शनिवार, जून 6—जून 12, 2009 (ज्येष्ठ 16, 1931)

No. 23]

NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 6—JUNE 12, 2009 (JYAISTHA 16, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 06 जून 2009

सेना शाखा

सं. 330, दिनांक 07 मई 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन एस कुंडु टीए(एम)--1202, एमएनएसटीए, 21 जनवरी 2007

कैप्टन आर चौधरी टीए(एम)--1201, एमएनएसटीए, 09 अगस्त 2006

जय राज

अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 331, दिनांक 07 मई 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:--

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

5 जी आर (एफएफ)

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार जित बहादुर गुरुंग (सं. 5450509एल अब जेसी-617913पी),
01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राजेन्द्र सिंह थापा (सं. 5450373एम अब जेसी-617914एक्स),
07 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राम बहादुर छेत्रि (सं. 5451197एम अब जेसी-617915ए),
17 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मन मोहन थापा (सं. 5451326एफ अब जेसी-617916एच),
17 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार दिलीप कुमार गुरुंग (सं. 5451050डब्ल्यू अब जेसी-
617917एल), 27 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अम्मर बहादुर थापा (सं. 5451057ए अब
जेसी-617895एक्स), 27 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लक्ष्मी पति पौडेल (सं. 5450256एफ अब जेसी-617896ए),
01 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 17 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लुमा कार्त भुसल (सं. 5450259पी अब जेसी-617897एच),
01 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार देव बहादुर गुरुंग (सं. 5450104ए अब जेसी-617898एल),
10 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार दोला राज थापा (सं. 5450260के अब जेसी-617899एन),
01 जुलाई 2008

हवलदार नेत्र बहादुर के सी (सं. 5449951के अब जेसी-617900एक्स),
01 अगस्त 2008

हवलदार देब बहादुर राना (सं. 5451182के अब जेसी-617901ए),
13 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार होबिर सेन (सं. 5451205ए अब जेसी-617902एच),
13 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 19 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रत्ना बहादुर गुरुंग (सं. 5449954एक्स अब जेसी-
617903एल), 01 सितम्बर 2008

हवलदार धन बहादुर थापा (सं. 5449943एल अब जेसी 617904एन),
01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राम चन्द्र लामिछने (सं. 5450255वाई अब जेसी-
617890वाई), 17 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार भक्ता बहादुर थापा (सं. 5450020एम अब जेसी-
617891एफ), 13 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लाल बहादुर थापा (सं. 5451565डब्ल्यू अब जेसी-
617892के), 13 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार छवि लाल राना (सं. 5451368एन अब जेसी-617893एम),
29 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रोमन सिंह थापा (सं. 5451558ए अब जेसी-617894पी),
01 जून 2008

हवलदार नेत्रा बहादुर (सं. 5450723एन अब जेसी-617884एल),
26 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार शिवा बहादुर खत्री (सं. 5451013एच अब जेसी-
617886डब्ल्यू), 03 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार दिपेन्द्र अले (सं. 5451091ए अब जेसी-617887वाई),
06 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार खुम बहादुर घर्ति (सं. 5451358के अब जेसी-617888एफ),
06 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लोक बहादुर थापा (सं. 5451360एफ अब जेसी-617889के),
06 मई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लेख सिंह थापा (सं. 5450794पी अब जेसी-617905डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लिल बहादुर बुढाथोकि (सं. 5451452एन अब जेसी-
617906वाई), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार तोल बहादुर राना (सं. 5450316एल अब जेसी-617908के),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार चुंदा शेरपा (सं. 5453938एक्स अब जेसी-617911के),
05 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार गेश बहादुर राना (सं. 5450463एन अब जेसी-617912एम),
05 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार/लिपिक (जीडी) के रैंक में

हवलदार/लिपिक प्रदीप कुमार (सं. 5450226के अब जेसी-
617907एफ), 04 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक बिरेंद्र कुमार राई (सं. 5450237डब्ल्यू अब
जेसी-617909एम), 01 नवम्बर 2008

हवलदार/लिपिक जोशी नारनभाई जेठभाई (सं. 5450245पी अब
जेसी-617910एफ), 01 नवम्बर 2008

हवलदार/लिपिक एस थिरुग्ननम (सं. 5450272वाई अब
जेसी-617918एन), 01 दिसम्बर 2008

8 जी आर

नायब सूबेदार/लिपिक जीडी के रैंक में

हवलदार बाबू काजी थापा (सं. 5751527वाई अब जेसी-623845एच),
01 जून 2008

हवलदार हुम राज श्रेष्ठ (सं. 5752265ए अब जेसी-623846एल),
01 जून 2008

हवलदार लेख बहादुर थापा (सं. 5751621एच अब जेसी-623847एन),
01 जून 2008

हवलदार चंद्रा बहादुर गुरुंग (सं. 5751616एक्स अब जेसी-
623848डब्ल्यू), 01 जून 2008

हवलदार/लिपिक रविन्द्र (सं. 5751171डब्ल्यू अब जेसी-623849वाई),
01 जून 2008

हवलदार/लिपिक राम नाथ यादव (सं. 5751167एन अब
जेसी-623850एन), 01 जुलाई 2008

हवलदार अनिल गुरुंग (सं. 5752558एल अब जेसी-623857एक्स),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 02 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार तारा बहादुर गुरुंग (सं. 5751622एल अब जेसी-623858ए),
25 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कर्ना बहादुर थापा (सं. 5752674एन अब जेसी-623859एच),
01 जुलाई 2008

हवलदार/लिपिक चित्त रंजन सरकार (सं. 5751470पी अब
जेसी-623851डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

हवलदार तुल बहादुर घर्ति (सं. 5751795एच अब जेसी-623861ए),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कमल बहादुर आले (सं. 5751577के अब
जेसी-623865डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार प्रेम बहादुर थापा (सं. 5753787एच अब जेसी-623866वाई),
12 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मन बहादुर थापा (सं. 5752042एच अब जेसी-623867एफ),
07 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार/लिपिक वी माथेस्वरन (सं. 5751657एफ अब जेसी-
623860एक्स), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

नायब सूबेदार/जीडी के रैंक में

हवलदार धन बहादुर शारू (सं. 5752171एच अब जेसी-623868के),
05 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार शेर बहादुर थापा (सं. 5752098पी अब जेसी-623869एम),
28 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कर्ना बहादुर गुरुंग (सं. 5752332ए अब जेसी-623870एफ),
28 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार यम्या मुर्ति थापा (सं. 5751492एन अब जेसी-623871के),
22 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 07 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार दल बहादुर आले (सं. 5751940पी अब जेसी-623872एम),
01 दिसम्बर 2008

गढ़वाल राईफल्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मंगल सिंह (सं. 4068328वाई अब जेसी-530582एच).

14 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार हरी सिंह (सं. 4069245ए अब जेसी-530583एल), 21 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार कृत सिंह (सं. 4068030पी अब जेसी-530584एन), 05 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार प्रभु दयाल बिष्ट (सं. 4070259एम अब जेसी-530585डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार जयकृत सिंह (सं. 4068702डब्ल्यू अब जेसी-530586वाई), 05 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 4069087डब्ल्यू अब जेसी-530587एफ), 10 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार राजेश सिंह (सं. 4069160के अब जेसी-530588के), 11 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुन्दर सिंह (सं. 4069233एल अब जेसी-530589एम), 14 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मेहरवान सिंह (सं. 4070377ए अब जेसी-530590एफ), 22 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जीतपाल सिंह सजवान (सं. 4069329एन अब जेसी-530593पी), 14 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार महिपाल सिंह (सं. 4069555एल अब जेसी-530594एक्स), 29 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जयपाल सिंह (सं. 4070453एफ अब जेसी-530595ए), 21 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार नारायण सिंह (सं. 4069921एक्स अब जेसी-530596एच), 12 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार ठाकुर सिंह रावत (सं. 4358395पी अब जेसी-530599डब्ल्यू), 04 दिसम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार कलम सिंह (सं. 4067790एल अब जेसी-530600ए), 17 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार दलबीर सिंह रावत (सं. 4068807ए अब जेसी-530601एच), 01 नवम्बर 2008

हवलदार मदन सिंह (सं. 4069467पी अब जेसी-530602एल), 01 नवम्बर 2008

हवलदार जगमोहन सिंह (सं. 4068569वाई अब जेसी-530603एन), 18 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार शेर सिंह (सं. 4068652डब्ल्यू अब जेसी-530604डब्ल्यू), 02 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) विष्णु प्रसाद भट्ट (सं. 4068437एल अब जेसी-530591के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) हकम सिंह धिमान (सं. 8031249एल अब जेसी-530592एम), 22 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) गजपाल सिंह (सं. 4068680एच अब जेसी-530598एन), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में

रिक्रूट (धर्म शिक्षक) धनश्याम शुक्ला (अब जेसी-530466ए),
06 सितम्बर 2008

नायब सूबेदार (म्युजिशियन) के रैंक में

हवलदार (म्युजिशियन) कुलदीपक सिंह (सं. 4071445पी अब जेसी-
530597एल), 01 अक्टूबर 2008

मद्रास रेजिमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सी चेन्नायन (सं. 2592900डब्ल्यू अब जेसी-440064एफ),
28 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार एम देवाराज (सं. 3990042के अब जेसी-440040एक्स),
01 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जी एल नन्जाप्पन (सं. 2592375एल अब जेसी-440051के),
21 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 2592822के अब जेसी-440033एफ),
12 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 15 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शांकर ए (सं. 2592921एम अब जेसी-440065के),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 17 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जोनसन टी (सं. 4358522वाई अब जेसी-440075एन),
14 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 19 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कुशालाप्पा एम पी (सं. 2598005एफ अब जेसी-
440077वाई), 17 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 25 मई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सोमाप्पा एन संगम्मानवर (सं. 2591750वाई अब जेसी-
440062डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

हवलदार वेन्कटा राव पेदाड़ा (सं. 2592263एल अब जेसी-
440063वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार अल्लामापल्ली एस प्रकाशा राव (सं. 2592873एक्स अब
जेसी-440067पी), 07 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रवीन्द्रन के के (सं. 2592005एल अब जेसी-440078एफ),
23 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार संजीवन एम वी (सं. 2596920एफ अब जेसी-440079के),
24 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बी मणी (सं. 2591759एन अब जेसी-440082के),
26 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 17 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बसवन्ताप्पा शीरूर (सं. 2595184एफ अब जेसी-
440087एच), 26 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 15 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार गोविन्दाराजू के (सं. 2589546एफ अब जेसी-440069ए),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार एम्माडा श्रीहरी रेड्डी (सं. 2589944एच अब जेसी-440070पी),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जी राजेन्द्रान (सं. 2591090एम अब जेसी-440071एक्स),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जे बालतासर (सं. 2589601एम अब जेसी-440072ए),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 06 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार आर क्लेमेंट (सं. 2590863पी अब जेसी-440073एच),
01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना
वरिष्ठता 06 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शोक जैनुल अब्दीन (सं. 2590725एन अब जेसी-440074एल), 01 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 06 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार प्रभाकरन एम (सं. 2591926वाई अब जेसी-440050एफ), 01 जुलाई 2008

हवलदार सुब्रमोनियन आचारी सी (सं. 2593404एफ अब जेसी-440111एन), 04 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार एस राजु (सं. 2593624एल अब जेसी-440112डब्ल्यू), 04 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार तिम्य्या ओ आर (सं. 2596572एल अब जेसी-440120पी), 04 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जी राजेश (सं. 2595283के अब जेसी-440083एम), 01 अगस्त 2008

हवलदार राजीव के एस (सं. 2592267एफ अब जेसी-440109डब्ल्यू), 06 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रेगीटि वैकथ राव (सं. 2593798एल अब जेसी-440113वाई), 04 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार पोलिमेट्ला साम्बासिवा राव (सं. 2592887एक्स अब जेसी-440115के), 04 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सारिप्पल्ली गंगय्या (सं. 2593288के अब जेसी-440084पी), 13 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बाबु खराडे (सं. 2592795एल अब जेसी-440085एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार जी सन्तोश कुमार (सं. 2595302के अब जेसी-440090एच), 01 अगस्त 2008

हवलदार डी बलरामन (सं. 2595501एक्स अब जेसी-440091एल), 01 सितम्बर 2008

हवलदार आर सुब्रमनी (सं. 2594183एम अब जेसी-440093डब्ल्यू), 02 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राहुलन टी (सं. 2591988वाई अब जेसी-440094वाई), 08 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जयप्रकासन के पी (सं. 2592816डब्ल्यू अब जेसी-440097एम), 05 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किये बिना वरिष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

मराठा लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार कृष्णा कुमार पाटील (सं. 2795071एच अब जेसी-459929एक्स), 08 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार बेण्डमाली गजानन पांडुरंग (सं. 2785378ए अब जेसी-459930एम), 09 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार सावंत सुरबा रामचंद्र (सं. 2785745एफ अब जेसी-459931पी), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार बोंद्रे बाबु नानाभाऊ (सं. 13616457एच अब जेसी-459932एक्स), 15 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सावंत विश्वनाथ नामदेव (सं. 2786463पी अब जेसी-459933ए), 15 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार आंबरे अरविंद यशवंत (सं. 2786266एम अब जेसी-459934एच), 16 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पाटील भरत त्रिम्बक (सं. 2786590के अब जेसी-459935एल), 27 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार शिंदे राजकुमार धोंडिराम (सं. 2787457एन अब जेसी-459936एन), 27 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार चव्हाण जालिंदर ज्ञानोबा (सं. 2786455डब्ल्यू अब जेसी-459937डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पडवल संजय भगवान (सं. 2786317पी अब जेसी-459938वाई), 02 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुरेश (सं. 2780481एफ अब जेसी-459941वाई), 07 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पाटील राजाराम यल्लापा (सं. 2785812एफ अब जेसी-459942एफ), 15 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार शिवाजी भैरू पाटील (सं. 2785297ए अब जेसी-459943के), 01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार रामराव पाण्डुरंग कालकुंद्रीकर (सं. 2785330एम अब जेसी-459944एम), 17 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार गटकल मारुति वासुदेव (सं. 2787357एच अब जेसी-459945पी), 04 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पवार महादेव विष्णु (सं. 2786556के अब जेसी-459946एक्स), 01 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार गायकवाड शिवाजी श्रीरंग (सं. 2785669ए अब जेसी-459947ए), 05 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार वेंकटप्पा भुसरड्डी (सं. 2786424डब्ल्यू अब जेसी-459948एच), 17 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पवार युवराज हरि (सं. 2784149एच अब जेसी-459949एल), 01 नवम्बर 2008

हवलदार झांजुर्णे संजय एकनाथ (सं. 2781976ए अब जेसी-459950ए), 06 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार लिपिक शिंदे अभिमन्यु कोरबा (सं. 2781802ए अब जेसी-459939एफ), 18 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार लिपिक महेंद्र सिंह (सं. 2782888डब्ल्यू अब जेसी-459940डब्ल्यू), 14 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

सिख लाईट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में

हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 4468651एफ अब जेसी-509677पी), 26 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मुखा (सं. 4468101वाई अब जेसी-509678एक्स), 26 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2008 से दी जायेगी)

हवलदार रनधीर सिंह (सं. 4466413डब्ल्यू अब जेसी-509679ए), 16 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार राज सिंह (सं. 4469686के अब जेसी-509680पी), 23 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जायेगी)

हवलदार टहल सिंह (सं. 4465543एम अब जेसी-509702एच),
16 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 4468370एल अब जेसी-509703एल),
25 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मंगल सिंह (सं. 4470862एच अब जेसी-509704एन),
29 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 जून 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुचा सिंह (सं. 4467407पी अब जेसी-509705डब्ल्यू),
14 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जगसीर सिंह (सं. 4468309एफ अब जेसी-509706वाई),
08 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सुखदेव सिंह (सं. 4468272एल अब जेसी-509707एफ),
08 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार गुरमेल सिंह (सं. 4466851वाई अब जेसी-509708के),
01 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 4266616डब्ल्यू अब जेसी-509709एम),
22 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार परमजीत सिंह (सं. 4468895पी अब जेसी-509710एफ),
13 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जगतार सिंह (सं. 4470183एल अब जेसी-509711के),
22 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जरनैल सिंह (सं. 4468166एम अब जेसी-509712एम),
21 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 4470299एफ अब जेसी-509713पी),
23 जुलाई 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 4469940एच अब जेसी-509714एक्स),
24 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार प्रकाश सिंह बडवेर (सं. 4468432ए अब जेसी-509715ए),
09 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार शिंगारा सिंह (सं. 4466594एम अब जेसी-509716एच),
23 अगस्त 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार हरवंश सिंह (सं. 4467646के अब जेसी-509717एल),
23 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 4468245एफ अब जेसी-509718एन),
03 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार सतपाल सिंह (सं. 4467819डब्ल्यू अब जेसी-509719डब्ल्यू), 19 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार केवल सिंह (सं. 4471880एक्स अब जेसी-509720एल),
20 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 जुलाई 2008 से दी जायेगी)

हवलदार भाग सिंह (सं. 4467177एम अब जेसी-509721एन),
22 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार मुकन्द सिंह (सं. 4468459एक्स अब जेसी-509722डब्ल्यू),
12 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कुलवंत सिंह (सं. 4465551एल अब जेसी-509723वाई),
31 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अगस्त 2008 से दी जायेगी)

हवलदार कुलदीप सिंह (सं. 4472040के अब जेसी-509725के),
08 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार जगरूप सिंह (सं. 4468064डब्ल्यू अब जेसी-509726एम),
12 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बलदेव सिंह (सं. 4467777पी अब जेसी-509727पी),
25 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार बलवंत सिंह (सं. 4468322एल अब जेसी-509728एक्स),
21 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार चरनजीत सिंह (सं. 4469912डब्ल्यू अब जेसी-509729ए),
17 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

हवलदार गुरमुख सिंह (सं. 4468668पी अब जेसी-509730पी),
21 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (जीडी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2008 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (क्लर्क) (जी डी) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) (जीडी) वी गोविन्दा राजू (सं. 15363061एक्स अब जेसी-509724एफ), 01 सितम्बर 2008

नियमित सेना इन्फैन्ट्री--जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री

नायब सूबेदार (लिपिक) की पदोन्नति के लिए

हवलदार (लिपिक) मुखदेव सिंह पडा (सं. 2887667एच अब जेसी-593689एम), 07 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 जुलाई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) शीव प्रताप सिंह (सं. 3184115एन अब जेसी-593671 डब्ल्यू), 24 जुलाई 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 जुलाई 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) चंचोलकर प्रभाकर नीलकंठ राव (सं. 3391829एन अब जेसी-593678ए), 01 अगस्त 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 अगस्त 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) सुनील बोरुअह (सं. 3991054एलअब जेसी-593696एच), 01 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 सितम्बर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) खेदाकर सम्पत उत्तम (सं. 3184094एच अब जेसी- 593688के), 01 सितम्बर 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 सितम्बर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) मंगा सिंह (सं. 9094606एन अब जेसी-593697एल), 23 अक्टूबर 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (संगीतकार) अंग्रेज सिंह (सं. 9088505के अब जेसी-593720एन), 19 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार (संगीतकार) के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) विजय शंकर पांडे (सं. 9094607डब्ल्यू अब जेसी-593721डब्ल्यू), 11 नवम्बर 2008

(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में 01 अक्टूबर 2008 से वरिष्ठता दी जाती है)

बिहार रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार जुनस लोहरा (सं. 4267769एम अब जेसी-560095एक्स),
31 अक्टूबर 2008/02 अगस्त 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 02 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार अरविंद कुमार सिंह (सं. 4266205एक्स अब जेसी-560096ए), 24 नवम्बर 2008/27 सितम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 27 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार हरेंद्र प्रसाद यादव (सं. 13617461एक्स अब जेसी-560097एच), 30 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार जेराई तिकी (सं. 4266955डब्ल्यू अब जेसी-560098एल), 12 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर पदमा चरन प्रधान (सं. 4269004के अब जेसी-560099एन), 18 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर चंद्र भानु पंडा (सं. 4269134एम अब जेसी-560100एक्स), 24 नवम्बर 2008/07 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 07 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार गौरी शंकर यादव (सं. 4266245वाई अब जेसी-560101ए), 24 नवम्बर 2008/15 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 15 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मायाधर नायक (सं. 4269266ए अब जेसी-560102एच), 18 नवम्बर 2008/01 नवम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक हरि ओम शर्मा (सं. 4265454के अब जेसी-560103एल), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार कुल्सांगे मारोती देवाजी (सं. 4269294एम अब जेसी-560089के), 04 नवम्बर 2008/01 जून 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार राम अवतार साह (सं. 4270328एफ अब जेसी-560090वाई), 04 नवम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मनोज कुमार यादव (सं. 4265269डब्ल्यू अब जेसी-560091एफ), 11 नवम्बर 2008/23 सितम्बर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 23 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

कम्पनी हवलदार मेजर राम अश्रे प्रसाद सिंह (सं. 4264403के अब जेसी-560092के), 01 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार राजेंद्र प्रसाद सिंह (सं. 4264684एल अब जेसी-560093एम), 01 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार मकर ध्वज सिंघु (सं. 4267574एफ अब जेसी-560094पी), 01 नवम्बर 2008/01 अक्टूबर 2008 (ज्येष्ठता)×

×(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना नायब सूबेदार के रैंक में ज्येष्ठता दिनांक 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

डोगरा रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार धर्म पाल (सं. 3987800एल अब जेसी-520883वाई), 03 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार ईश्वर दास (सं. 3987804एफ अब जेसी-520884एफ), 03 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार राज कुमार शर्मा (सं. 3987815एन अब जेसी-520885के), 14 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाती है)

हवलदार अजय कुमार (सं. 3987555एन अब जेसी-520886एम), 13 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार केवल कृष्ण (सं. 3986236पी अब जेसी-520887पी), 25 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार सुरम सिंह (सं. 3986915एम अब जेसी-520888एक्स), 08 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार एनेक सिंह (सं. 3987009एफ अब जेसी-520889ए), 20 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार ब्रह्म लाल शर्मा (सं. 3986399एच अब जेसी-520890पी),
30 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार दिलीवर सिंह (सं. 3986735के अब जेसी-520891एक्स),
16 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार भुवनेश कुमार (सं. 3987365एफ अब जेसी-520892ए),
03 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार धर्म चन्द (सं. 3986274एल अब जेसी-520893एच),
25 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जुलाई 2008 से दी जाती है)

हवलदार रणजीत सिंह (सं. 3986127एच अब जेसी-520894एल),
03 नवम्बर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार धर्म चन्द (सं. 3987345एन अब जेसी-520895एन),
03 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार मोहिन्दर सिंह (सं. 3987050एक्स अब जेसी-520896डब्ल्यू),
13 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार देश राज (सं. 3984803एन अब जेसी-520897वाई),
13 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार द्वारका नाथ (सं. 3986404एच अब जेसी-520898एफ),
08 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार पवन कुमार (सं. 3989190एच अब जेसी-520899के),
08 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार अरविन्द सिंह (सं. 3986299एक्स अब जेसी-520900एन),
25 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार नरेश कुमार (सं. 3986303पी अब जेसी-520901डब्ल्यू),
25 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार केवल कृष्ण (सं. 3986384ए अब जेसी-520902वाई),
25 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार शाम लाल (सं. 3987372एक्स अब जेसी-520903एफ),
26 सितम्बर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

हवलदार ज्ञान चन्द (सं. 3986393एफ अब जेसी-520904के),
25 अक्टूबर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2008 से दी जाती है)

नायब सूबेदार लिपिक के रैंक में

हवलदार/लिपिक रमेश चन्द्र (सं. 3988720ए अब जेसी-520905एम),
30 अगस्त 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाती है)

हवलदार/लिपिक नारायण पात्रो (सं. 3988724डब्ल्यू अब जेसी-520906पी), 01 नवम्बर 2008

हवलदार/लिपिक जोशी सुरती राम रणवीर (सं. 15359548एन अब जेसी-520907एक्स), 10 नवम्बर 2008×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाती है)

दी राजपूत रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार लिपिक के रूप में

हवलदार/लिपिक प्रमोद कुमार (सं. 2986082एक्स अब जेसी-480285डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार/लिपिक मन मोहन सिंह (सं. 2986024एन अब जेसी-480286वाई), 20 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार के रूप में

हवलदार संजीव कुमार (सं. 2997276ए अब जेसी-480287एफ),
19 सितम्बर 2008

हवलदार राकेश सिंह तोमर (सं. 2988718एम अब जेसी-480288के),
21 सितम्बर 2008

हवलदार जगवीर सिंह (सं. 2984716के अब जेसी-480289एम),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार महेन्द्रा कुमार सिंह (सं. 2987477एल अब जेसी-
480290एफ), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार भैरों सिंह चौहान (सं. 2986166एल अब जेसी-480291के),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार नाहर सिंह (सं. 2988583डब्ल्यू अब जेसी-480292एम),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम किशन गूजर (सं. 2989298के अब जेसी-480293पी),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार शेफूदीन (सं. 2985272एक्स अब जेसी-480294एक्स), 01
अक्टूबर 2008

हवलदार बिरेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 2985906एच अब जेसी-480295ए),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार उदयवीर सिंह (सं. 2992420ए अब जेसी-480296एच),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार परवेश सिंह (सं. 2985661एक्स अब जेसी-480297एल),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार मान सिंह (सं. 2986070एच अब जेसी-480298एन),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार सूबे सिंह (सं. 2985887एच अब जेसी-480299डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार सुनील कुमार सिंह (सं. 2986654एन अब जेसी-480300ए),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम किशोर गूजर (सं. 2987338एफ अब जेसी-480301एच),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार विनोद कुमार (सं. 2987546डब्ल्यू अब जेसी-480302एल),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम स्वरूप गोचर (सं. 2987328एक्स अब जेसी-
480303एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम बरन सिंह (सं. 2987419एफ अब जेसी-480304डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार जगमाल सिंह (सं. 2987424एम अब जेसी-480305वाई),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार राज पाल सिंह (सं. 2987440के अब जेसी-480306एफ),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार अजय कुमार सिंह (सं. 2987644डब्ल्यू अब जेसी-
480307के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार महिन्दर सिंह (सं. 2985328वाई अब जेसी-480308एम),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार रमेश चन्दर (सं. 2986757एम अब जेसी-480309पी),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार श्री रमेश सिंह (सं. 2986951एफ अब जेसी-480310के),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार जयवीर सिंह (सं. 2987013एन अब जेसी-480311एम),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार जयपाल सिंह (सं. 2987690एल अब जेसी-480312पी),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार ब्रिजभान सिंह (सं. 2988928एम अब जेसी-480313एक्स),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार अजुद्दीन अनसारी (सं. 2991850एक्स अब जेसी-
480314ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार यशेन्द्रा सिंह (सं. 2986523एच अब जेसी-480315एच),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार रहीम बक्श (सं. 2985285पी अब जेसी-480316एल),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम सिंह (सं. 2986837के अब जेसी-480317एन),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार शीतला प्रसाद तिवारी (सं. 2991278पी अब जेसी-
480318डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार विजय पाल सिंह (सं. 2989927डब्ल्यू अब जेसी-
480319वाई), 01 नवम्बर 2008

हवलदार देश राज (सं. 2984290एन अब जेसी-480320एन),
01 नवम्बर 2008

हवलदार रमेश सिंह (सं. 2984946एक्स अब जेसी-480321वाई),
01 नवम्बर 2008

हवलदार लाखन सिंह (सं. 2986917एफ अब जेसी-480322एफ),
01 नवम्बर 2008

हवलदार अजय कुमार (सं. 2988196एफ अब जेसी-480323एफ),
01 नवम्बर 2008

हवलदार महेन्द्रा पाल सिंह (सं. 2985758एच अब जेसी-480324के),
01 नवम्बर 2008

हवलदार ललक किशोर सिंह (सं. 2988202के अब जेसी-480325एम),
01 नवम्बर 2008

हवलदार पवन कुमार सिंह (सं. 2986761पी अब जेसी-480326पी),
01 नवम्बर 2008

हवलदार प्रमोद कुमार सिंह (सं. 2985035एन अब जेसी-
480327एक्स), 01 नवम्बर 2008

हवलदार पवन कुमार सिंह (सं. 8032399एन अब जेसी-480328ए),
01 नवम्बर 2008

हवलदार सुराम सिंह राना (सं. 2986531एफ अब जेसी-480329एच),
01 नवम्बर 2008

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 2985767के अब जेसी-480330एक्स),
01 नवम्बर 2008

जाट रेजीमेंट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार महेन्द्र सिंह सुहाग (सं. 3181633एच अब जेसी-490355एक्स),
04 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 18 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार गोपाल सिंह अधिकारी (सं. 3180191एच अब जेसी-
490356ए), 14 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 3182485पी अब जेसी-490357एच),
04 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जयवीर सिंह वर्मा (सं. 3183148एम अब जेसी-
490358एल), 24 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मुन्ना सिंह (सं. 3180224एच अब जेसी-490359एन),
14 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 16 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुखवीर सिंह (सं. 3181279वाई अब जेसी-490360एच),
14 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रनवीर सिंह (सं. 3180298एक्स अब जेसी-490361एल),
13 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार भगवान सिंह (सं. 3181845एन अब जेसी-490362एन),
14 सितम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार गिरधारी लाल (सं. 3182954एम अब जेसी-490363डब्ल्यू),
30 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 04 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार होशियार सिंह (सं. 3176052एफ अब जेसी-490364वाई),
08 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जय करन सिंह (सं. 3177350के अब जेसी-490365एफ),
08 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार नबाब सिंह (सं. 3180440डब्ल्यू अब जेसी-490366के),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार अशोक कुमार (सं. 3180408एफ अब जेसी-490367एम),
10 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार महेन्द्र सिंह (सं. 3182487ए अब जेसी-490368पी),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार सुरेश सिंह (सं. 3182505एक्स अब जेसी-490369एक्स),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार पवन कुमार (सं. 3180669पी अब जेसी-490370एम),
17 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार रामवीर (सं. 3191306एल अब जेसी-490371पी), 05 नवम्बर
2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार भंवर लाल (सं. 3182970के अब जेसी-490372एक्स),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार आसू राम (सं. 4071795एफ अब जेसी-490373ए),
05 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुरेन्द्र सिंह (सं. 13617538पी अब जेसी-490374एच),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार राजवीर सिंह (सं. 3184724एक्स अब जेसी-490375एल),
12 अक्टूबर 2008

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3184798एम अब जेसी-490376एन),
20 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 13 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मुनीश कुमार (सं. 3182712के अब जेसी-490377डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2008

हवलदार सतीश कुमार (सं. 3181083एल अब जेसी-490378वाई),
01 नवम्बर 2008

हवलदार राकेश (सं. 3180813वाई अब जेसी-490379एफ), 01 नवम्बर
2008

हवलदार राम गोपाल सिंह (सं. 3184799पी अब जेसी-
490380डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

हवलदार जगजीत सिंह (सं. 3185108के अब जेसी-490381वाई),
03 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जय करन (सं. 3178834डब्ल्यू अब जेसी-490382एफ),
11 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) वेद प्रकाश यादव (सं. 3179221एच अब जेसी-
490383के), 13 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) विरेन्द्र कुमार (सं. 3179379एल अब जेसी-
490384एम), 01 अक्टूबर 2008

सिक्ख रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार सुखविंदर सिंह (सं. 3389621एम अब जेसी-500077एल),
14 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कवलजीत सिंह (सं. 3387265वाई अब जेसी-500078एन),
25 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार हरजिंदर सिंह (सं. 3388262एक्स अब जेसी-500079डब्ल्यू),
12 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुखपाल सिंह (सं. 3388793पी अब जेसी-500080एल),
10 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुखविंदर सिंह (सं. 3388406पी अब जेसी-500081एन),
26 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार कुलवंत सिंह (सं. 3389525एक्स अब जेसी-500082डब्ल्यू),
20 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 अगस्त 2008 से दी जाएगी)

हवलदार गुरदयाल सिंह (सं. 3387028पी अब जेसी-500083वाई),
25 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 03 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अवतार सिंह (सं. 3388531वाई अब जेसी-500084एफ),
21 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 20 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मलकीत सिंह (सं. 3389492एक्स अब जेसी-500085के),
01 नवम्बर 2008

हवलदार सेवक सिंह (सं. 3392603पी अब जेसी-500086एम),
12 नवम्बर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2008 से दी जाएगी)

जम्मू और काश्मीर राईफलस

नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में

हवलदार बलविन्द सिंह (सं. 1372981डब्ल्यू अब जेसी-580782पी),
29 जून 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना
ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अंग्रेज सिंह (सं. 13750056पी अब जेसी-580783एक्स),
01 सितम्बर 2008

हवलदार राम दास (सं. 13750294एफ अब जेसी-580788डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2008

हवलदार पद्म सिंह (सं. 13754290एच अब जेसी-580789वाई),
01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार लिपिक (जी डी) के रैंक में

हवलदार (लिपिक) मनोहर सिंह ठाकुर (सं. 13750649एफ अब जेसी-580777के), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) अशोक कुमार गंगोटिया (सं. 13750865पी अब जेसी-580778एम), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) चमन लाल (सं. 13750871एच अब जेसी-580779पी), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) नरिन्द्र सिंह (सं. 13750921एच अब जेसी-580780के), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) मोहम्मद इकबाल नवजर (सं. 13751095ए अब जेसी-580781एम), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) राज रिशि सुहाग (सं. 13751771के अब जेसी-580784ए), 01 अक्टूबर 2008 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार (लिपिक) राम कुमार सिंह (सं. 13751776एच अब जेसी-580785एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) सूर्या प्रकाश भावसर (सं. 13751841एक्स अब जेसी-580786एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार (लिपिक) देदा राम चौधरी (सं. 13751991एन अब जेसी-580787एन), 01 अक्टूबर 2008

प्रिनेडियर्स

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार विपन कुमार (सं. 2680674एम अब जेसी-450568एच), 26 मार्च 2008

हवलदार सत्य नारायण (सं. 2681573एल अब जेसी-450569एल), 03 अगस्त 2008

हवलदार राम निवास मीना (सं. 2677898एफ अब जेसी-450570ए), 13 अगस्त 2008

हवलदार श्रीनिवास सिंह (सं. 2681320डब्ल्यू अब जेसी-450571एच), 24 अगस्त 2008

हवलदार विजय सिंह (सं. 2680312एल अब जेसी-450572एल), 01 सितम्बर 2008

हवलदार (लिपिक) एल वैकट्य चलम (सं. 2682105एक्स अब जेसी-450573एन), 01 मई 2008

जे राय चौधरी
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th June 2009

(ARMY BRANCH)

No. 330, dated 7th May 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt S Kundu TA(M)-1202 (AMC TA), 21 Jan 2007

Capt R Choudhary TA(M)-1201 (AMC TA), 09 Aug 2006

JAI RAJ
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 331, dated 7th May 2009—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

INFANTRY

5 GR (FF)

To be Nb Sub (GD)

Hav Jit Bahadur Gurung (No. 5450509L now JC-617913P),
01 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rajendra Singh Thapa (No. 5450373M now JC-
617914X), 07 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Bahadur Chhetri (No. 5451197M now JC-
617915A), 17 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Man Mohan Thapa (No. 5451326F now JC-617916H),
17 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dilip Kumar Gurung (No. 5451050W now JC-
617917L), 27 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ammar Bahadur Thapa (No. 5451057A now JC-
617895X), 27 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2008 without effect on pay and allowances)

5—94 GI/2009

Hav Laxmi Pati Paudel (No. 5450256F now JC-617896A),
01 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jun
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Luma Kant Bhusal (No. 5450259P now JC-617897H),
01 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Dev Bahadur Gurung (No. 5450104A now JC-
617898L), 10 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008
without effect on pay and allowances)

Hav Dola Raj Thapa (No. 5450260K now JC-617899N),
01 Jul 2008

Hav Netra Bahadur K C (No. 5449951K now JC-617900X),
01 Aug 2008*

Hav Deb Bahadur Rana (No. 5451182K now JC-617901A),
13 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Aug
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Hobir Sen (No. 5451205A now JC-617902H), 13 Sep
2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Aug
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ratna Bahadur Gurung (No. 5449954X now JC-
617903L), 01 Sep 2008

Hav Dhan Bahadur Thapa (No. 5449943L now JC-
617904N), 01 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Sep
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ram Chandra Lamichhane (No. 5450255Y now JC-
617890Y), 17 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bhakta Bahadur Thapa (No. 5450020M now JC-
617891F), 13 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Lal Bahadur Thapa (No. 5451565W now JC-617892K),
13 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Chhabi Lal Rana (No. 5451368N now JC-617893M),
29 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Roman Singh Thapa (No. 5451558A now JC-617894P),
01 Jun 2008

Hav Netra Bahadur Thapa (No. 5450723N now JC-617884L), 26 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shiva Bahadur Khatri (No. 5451013H now JC-617886W), 03 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dipendra Ale (No. 5451091A now JC-617887Y), 06 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Khum Bahadur Gharti (No. 5451358K now JC-617888F), 06 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Lok Bahadur Thapa (No. 5451360F now JC-617889K), 06 May 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Lekh Singh Thapa (No. 5450794P now JC-617905W), 01 Dec 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Lil Bahadur Budhathoki (No. 5451452N now JC-617906Y), 01 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 04 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Tol Bahadur Rana (No. 5450316L now JC-617908K), 01 Oct 2008

Hav Chungda Sherpa (No. 5453938X now JC-617911K), 05 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Gesh Bahadur Rana (No. 5450463N now JC-617912M), 05 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub/Clk (GD)

Hav/Clk Pradeep Kumar (No. 5450226K now JC-617907F), 04 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Birendra Kumar Rai (No. 5450237W now JC-617909M), 01 Nov 2008

Hav/Clk Joshi Naranbhai Jethabhai (No. 5450245P now JC-617910F), 01 Nov 2008

Hav/Clk S Thirugnanam (No. 5450272Y now JC-617918N), 01 Dec 2008

8 GR

To be Nb Sub (Clk) and (GD)

Hav Babu Kaji Thapa (No. 5751527Y now JC-623845H), 01 Jun 2008

Hav Hum Raj Shrestha (No. 5752265A now JC-623846L), 01 Jun 2008

Hav Lekh Bahadur Thapa (No. 5751621H now JC-623847N), 01 Jun 2008

Hav Chandra Bahadur Gurung (No. 5751616X now JC-623848W), 01 Jun 2008

Hav/Clk Ravinder (No. 5751171W now JC-623849Y), 01 Jun 2008

Hav/Clk Ram Nath Yadav (No. 5751167N now JC-623850N), 01 Jul 2008

Hav Anil Gurung (No. 5752558L now JC-623857X), 01 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 02 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Tara Bahadur Gurung (No. 5751622L now JC-623858A), 25 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Karna Bahadur Thapa (No. 5752674N now JC-623859H), 01 Jul 2008

Hav/Clk Chitta Ranjan Sarkar (No. 5751470P now JC-623851W), 01 Jul 2008

Hav Tul Bahadur Gharti (No. 5751795H now JC-623861A), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Kamal Bahadur Ale (No. 5751577K now JC-623865W), 10 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Bahadur Thapa (No. 5753787H now JC-623866Y), 12 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Man Bahadur Thapa (No. 5752042H now JC-623867F), 07 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 13 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk V Matheswaran (No. 5751657F now JC-623860X), 01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 20 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (GD)

Hav Dhan Bahadur Sharu (No. 5752171H now JC-623868K), 05 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sher Bahadur Thapa (No. 5752098P now JC-623869M), 28 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Karna Bahadur Gurung (No. 5752332A now JC-623870F), 28 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Yagya Murti Thapa (No. 5751492N now JC-623871K), 22 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 07 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dal Bahadur Ale (No. 5751940P now JC-623872M), 01 Dec 2008

THE GARHWAL RIFLES

To be Nb Sub

Hav Mangal Singh (No. 4068328Y now JC-530582H), 14 Oct 2008/05 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Hari Singh (No. 4069245A now JC-530583L), 21 Aug 2008/01 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Krit Singh (No. 4068030P now JC-530584N), 05 Sep 2008/05 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 05 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Parbhu Dayal Bisht (No. 4070259M now JC-530585W), 01 Oct 2008/11 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 11 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jaikrit Singh (No. 4068702W now JC-530586Y), 05 Sep 2008/01 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Prem Singh (No. 4069087W now JC-530587F), 10 Oct 2008/01 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rajesh Singh (No. 4069160K now JC-530588K), 11 Oct 2008/01 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sunder Singh (No. 4069233L now JC-530589M), 14 Nov 2008/01 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Meharwan Singh (No. 4070377A now JC-530590F), 22 Nov 2008/21 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 21 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jeetpal Singh Sajwan (No. 4069329N now JC-530593P), 14 Nov 2008/01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Mahipal Singh (No. 4069555L now JC-530594X), 29 Oct 2008/01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jaipal Singh (No. 4070453F now JC-530595A), 11 Oct 2008/01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Narayan Singh (No. 4069921X now JC-530596H), 12 Nov 2008/01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Thakur Singh Rawat (No. 4358395P now JC-530599W), 04 Dec 2008/01 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Kalam Singh (No. 4067790L now JC-530600A), 17 Nov 2008/01 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dalbir Singh Rawat (No. 4068807A now JC-530601H), 01 Nov 2008

Hav Madan Singh (No. 4069467P now JC-530602L), 01 Nov 2008

Hav Jagmohan Singh (No. 4068569Y now JC-530603N), 18 Nov 2008/01 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sher Singh (No. 4068652W now JC-530604W), 02 Nov 2008/01 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav/Clk Bishnu Prasad Bhatt (No. 4068437L now JC-530591K), 01 Oct 2008

Hav/Clk Hakam Singh Dhiman (No. 8031249L now JC-530592M), 22 Oct 2008/01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav/Clk Gajpal Singh (No. 4068680H now JC-530598N), 01 Nov 2008

To be Nb Sub (RT)

Rect/RT Ghanshyam Shukla (Now JC-530466A), 06 Sep 2008

To be Nb Sub (Musn)

Hav/Musn Kuldeep Singh (No. 4071445P now JC-530597L), 01 Oct 2008

THE MADRAS REGIMENT

To be Nb Sub

Hav C Chendrayan (No. 2592900W now JC-440064F), 28 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav M Deva Raj (No. 3990042K now JC-440040X), 01 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav L Nanjappan (No. 2592375L now JC-440051K), 21 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh Kumar S (No. 2592822K now JC-440033F), 12 Jun 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shankar A (No. 2592921M now JC-440065K), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Johnson T (No. 4358522Y now JC-440075N), 14 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Kushalappa MP (No. 2598005F now JC-440077Y), 17 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 25 May 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Somappa N Sangammanavar (No. 2591750Y now JC-440062W), 01 Jul 2008

Hav Venkata Rao Pedada (No. 2592263L now JC-440063Y), 01 Jul 2008

Hav Allamapalli S Prakasa Rao (No. 2592873X now JC-440067P), 07 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Raveendran KK (No. 2592005L now JC-440078F), 23 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sanjeevan MV (No. 2596920F now JC-440079K), 24 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav B Mani (No. 2591759N now JC-440082K), 26 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 17 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Basavantappa Shirur (No. 2595184F now JC-440087H), 26 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 15 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Govindaraju K (No. 2589546F now JC-440069A), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Yempada Srihari Reddy (No. 2589944H now JC-440070P), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav G Rajendran (No. 2591090M now JC-440071X), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav J Balthasar (No. 2589601M now JC-440072A), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav R Clement (No. 2590863P now JC-440073H), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shaik Jainul Abidin (No. 2590725N now JC-440074L), 01 Jul 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Prabhakaran M (No. 2591926Y now JC-440050F), 01 Jul 2008

Hav Subrahmonyan Achary C (No. 2593404F now JC-440111N), 04 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav S Raju (No. 2593624L now JC-440112W), 04 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Thimmaiah OR (No. 2596572L now JC-440120P), 04 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav G Rajesh (No. 2595283K now JC-440083M), 01 Aug 2008

Hav Rajeev KS (No. 2592267F now JC-440109W), 06 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Regeti Venkata Rao (No. 2593798L now JC-440113Y), 04 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Polimetla Sambasiva Rao (No. 2592887X now JC-440115K), 04 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Saripelli Gangayya (No. 2593288K now JC-440084P), 13 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Babu Kharade (No. 2592795L now JC-440085X), 01 Aug 2008

Hav G Santosh Kumar (No. 2595302K now JC-440090H), 01 Aug 2008

Hav D Balaraman (No. 2595501X now JC-440091L), 01 Sep 2008

Hav R Subramani (No. 2594183M now JC-440093W), 02 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rahul T (No. 2591988Y now JC-440094Y), 08 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jayaprakasan KP (No. 2592816W now JC-440097M), 05 Aug 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

THE MARATHA LI

To be Nb Sub

Hav Krishan Kumar Patil (No. 2795071H now JC-459929X), 08 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bendmali Gajanan Pandurang (No. 2785378A now JC-459930M), 09 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sawant Suraba Ramchandra (No. 2785745F now JC-459931P), 01 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bondre Babu Nanabhau (No. 13616457H now JC-459932X), 15 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sawant Vishwanath Namdeo (No. 2786463P now JC-459933A), 15 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ambare Arvind Yashwant (No. 2786266M now JC-459934H), 16 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Bharat Trimbak (No. 2786590K now JC-459935L), 27 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shinde Rajkumar Dhondiram (No. 2787457N now JC-459936N), 27 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Chavan Jalindar Dnyanoba (No. 2786455W now JC-459937W), 27 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Padaval Sanjay Bhagwan (No. 2786317P now JC-459938Y), 02 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Suresh (No. 2780481F now JC-459941Y), 07 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Patil Rajaram Yallapa (No. 2785812F now JC-459942F), 15 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Shivaji Bhairu Patil (No. 2785297A now JC-459943K), 01 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ramrao Pandurang Kalkundrikar (No. 2785330M now JC-459944M), 17 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Gatkhal Maruthi Vasudeo (No. 2787357H now JC-459945P), 04 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Powar Mahadev Vishnu (No. 2786556K now JC-459946X), 01 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Gayakwad Shivaji Shrirang (No. 2785669A now JC-459947A), 05 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Venkateppa Bhusaraddi (No. 2786424W now JC-459948H), 17 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 06 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Pawar Uavaraj Hari (No. 2784149H now JC-459949L), 01 Nov 2008

Hav Zanjurne Sanjay Ekanath (No. 2781976A now JC-459950A), 06 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub Clk

Hav/Clk Shinde Abhimanyu Kerba (No. 2781802A now JC-459939F), 18 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Mahendra Singh (No. 2782888W now JC-459940W), 14 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

THE SIKH LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Surjit Singh (No. 4468651F now JC-509677P), 26 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2008)

Hav Mukha (No. 4468101Y now JC-509678X), 26 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2008)

Hav Randhir Singh (No. 4466413W now JC-509679A), 16 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2008)

Hav Raj Singh (No. 4469686K now JC-509680P), 23 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2008)

Hav Gurmit Singh (No. 4468382A now JC-509681X), 25 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 08 Apr 2008)

Hav Jit Singh (No. 4465454N now JC-509682A), 06 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Apr 2008)

Hav Ram Singh (No. 4467814X now JC-509683H), 01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Apr 2008)

Hav Jagtar Singh (No. 4467931H now JC-509684L), 23 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Apr 2008)

Hav Prem Singh (No. 4467804N now JC-509685N), 20 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Apr 2008)

Hav Sukhwinder Singh (No. 4468391F now JC-509686W), 20 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 09 Apr 2008)

Hav Tara Singh (No. 4467446N now JC-509687Y), 23 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2008)

Hav Ram Singh (No. 4469832Y now JC-509688F), 29 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2008)

Hav Manjit Singh (No. 4472438Y now JC-509689K), 25 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2008)

Hav Tasildar Singh (No. 4466842X now JC-509690Y),
02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 18 May 2008)

Hav Balwinder Singh (No. 4466801N now JC-509691F),
11 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jun 2008)

Hav Surinder Pal (No. 4466806M now JC-509692K),
22 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jun 2008)

Hav Sukhminder Singh (No. 4470048X now JC-509693M),
22 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jun 2008)

Hav Manjit Singh (No. 4472752M now JC-509694P),
08 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jun 2008)

Hav Baljit Singh (No. 4472134F now JC-509695X), 09 Aug
2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jun 2008)

Hav Sohan Singh (No. 4468454Y now JC-509696A),
10 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 03 Jun 2008)

Hav Major Singh (No. 4468593H now JC-509697H),
09 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 03 Jun 2008)

Hav Jagsir Singh Dhaliwal (No. 4468672X now JC-
509698L), 09 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 03 Jun 2008)

Hav Amrik Singh (No. 4468923W now JC-509699N),
09 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 03 Jun 2008)

Hav Sukhwinder Singh (No. 4464457P now JC-509700X),
02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 13 Jun 2008)

Hav Darshan Singh (No. 4467750X now JC-509701A),
02 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 13 Jun 2008)

Hav Tehal Singh (No. 4465543M now JC-509702H), 16 Jul
2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 16 Jun 2008)

Hav Sukhdev Singh (No. 4468370L now JC-509703L),
25 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 17 Jun 2008)

Hav Mangal Singh (No. 4470862H now JC-509704N),
29 Jul 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 30 Jun 2008)

Hav Sucha Singh (No. 4467407P now JC-509705W),
14 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Jagsir Singh (No. 4468309F now JC-509706Y), 08 Sep
2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Sukhdev Singh (No. 4468272L now JC-509707F),
08 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Gurmail Singh (No. 4466851Y now JC-509708K),
01 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Jaswant Singh (No. 4266616W now JC-509709M),
22 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Paramjit Singh (No. 4468895P now JC-509710F),
13 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Jagtar Singh (No. 4470183L now JC-509711K),
22 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Jarnail Singh (No. 4468166M now JC-509712M),
21 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Avtar Singh (No. 4470299F now JC-509713P), 23 Jul
2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Satpal Singh (No. 4469940H now JC-509714X),
24 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Jul 2008)

Hav Parkash Singh Badver (No. 4468432A now JC-
509715A), 09 Nov 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 14 Jul 2008)

Hav Shingara Singh (No. 4466594M now JC-509716H),
23 Aug 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 14 Jul 2008)

Hav Harbans Singh (No. 4467646L now JC-509717L),
23 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 14 Jul 2008)

Hav Baldev Singh (No. 4468245F now JC-509718N),
03 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 14 Jul 2008)

Hav Satpal Singh (No. 4467819W now JC-509719W),
19 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 14 Jul 2008)

Hav Kewal Singh (No. 4471880X now JC-509720L),
20 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 25 Jul 2008)

Hav Bhag Singh (No. 4467177M now JC-509721N),
22 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 11 Aug 2008)

Hav Mukand Singh (No. 4468459X now JC-509722W),
12 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 11 Aug 2008)

Hav Kulwant Singh (No. 4465551L now JC-509723Y),
31 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 15 Aug 2008)

Hav Kuldeep Singh (No. 4472040K now JC-509725K),
08 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Sep 2008)

Hav Jagroop Singh (No. 4468064W now JC-509726M),
12 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 01 Sep 2008)

Hav Baldev Singh (No. 4467777P now JC-509727P),
25 Sep 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 02 Sep 2008)

Hav Balwant Singh (No. 4468322L now JC-509728X),
21 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 16 Sep 2008)

Hav Charanjit Singh (No. 4469912W now JC-509729A),
17 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 16 Sep 2008)

Hav Gurmukh Singh (No. 4468668P now JC-509730P),
21 Oct 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with
effect from 19 Sep 2008)

To be Nb Sub (Clk GD)

Hav/Clk V Govinda Raju (No. 15363061X now JC-509724F),
01 Sep 2008

JAK LI

To be Naib Subedar (Clk)

Hav (Clk) Sukhdev Singh Padda (No. 2887667H now JC-
593689M), 07 Oct 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Oct 2007)

Hav (Clk) Shiv Pratap Singh (No. 3184115N now JC-
593671W), 24 Jul 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Jul 2008)

Hav (Clk) Chincholkar Prabhakar Nilkhant Rao (No.
3391829N now JC-593678A), 01 Aug 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Aug 2008)

Hav (Clk) Sunil Boruah (No. 3991054L now JC-593696H),
01 Sep 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Aug 2008)

Hav (Clk) Khedakar Sampat Uttam (No. 3184094H now
JC-593688K), 01 Sep 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Sep 2008)

Hav (Clk) Manga Singh (No. 9094606N now JC-593697L),
23 Oct 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Oct 2008)

Hav (Musn) Angrez Singh (No. 9088505K now JC-
593720N), 19 Nov 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub (Musn) wef 01 Oct
2008)

Hav (Clk) Vijay Shankar Pandey (No. 9094607W now JC-
593721W), 11 Nov 2008

(Gtd seniority in the rank of Nb Sub Clk wef 01 Oct 2008)

THE BIHAR REGIMENT

To be Naib Subedar (Gd/Clk)

Hav Junas Lohara (No. 4267769M now JC-560095X),
31 Oct 2008/02 Aug 2008(S)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 02 Aug 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Arvind Kumar Singh (No. 4266205X now JC-
560096A), 24 Nov 2008/27 Sep 2008(S)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 27 Sep 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Harendra Prasad Yadav (No. 13617461X now JC-
560097H), 30 Oct 2008/01 Oct 2008(S)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Oct 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Jerard Tirkey (No. 4266955W now JC-560098L),
12 Nov 2008 01 Oct 2008(S)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allces.)

CHM Padma Charan Pradhan (No. 4269004K now JC-
560099N), 18 Nov 2008/01 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Oct 2008 without effect on pay and allces.)

CHM Chandra Bhanu Panda (No. 4269134M now JC-
560100X), 24 Nov 2008/07 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 07 Oct 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Gauri Shankar Yadav (No. 4266245Y now JC-
560101A), 24 Nov 2008/15 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 15 Oct 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Mayadhar Naik (No. 4269266A now JC-560102H),
18 Nov 2008/01 Nov 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Nov 2008 without effect on pay and allces.)

Hav/Clk Hari Om Sharma (No. 4265454K now JC-560103L),
01 Dec 2008

Hav Kulsange Maroti Devaji (No. 4269294M now JC-
560089K), 04 Nov 2008/01 Jun 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Jun 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Ram Awtar Sah (No. 4270328F now JC-560090Y),
04 Nov 2008/01 Sep 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Sep 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Manoj Kumar Yadav (No. 4265269W now JC-
560091F), 11 Nov 2008/23 Sep 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 23 Sep 2008 without effect on pay and allces.)

CHM Ram Ashre Prasad Singh (No. 4264403K now JC-
560092K), 01 Nov 2008/01 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect
from 01 Oct 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Rajendra Prasad Singh (No. 4264684L now JC-
560093M), 01 Nov 2008/01 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allces.)

Hav Makar Dhawaj Sinku (No. 4267574F now JC-560094P),
01 Nov 2008/01 Oct 2008 (Seniority)*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and allces.)

THE DOGRA REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Dharam Pal (No. 3987800L now JC-520883Y), 03 Oct
2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and
allowances)

Hav Ishwar Dass (No. 3987804F now JC-520884F), 03 Oct
2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and
allowances)

Hav Raj Kumar Sharma (No. 3987815N now JC-520885K),
14 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Jun 2008 without effect on pay and
allowances)

Hav Ajay Kumar (No. 3987555N now JC-520886M),
13 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and
allowances)

Hav Kewal Krishan (No. 3986236P now JC-520887P),
25 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and
allowances)

Hav Suram Singh (No. 3986915M now JC-520888S),
08 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and
allowances)

Hav Anek Singh (No. 3987009F now JC-520889A), 20 Oct
2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with
effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and
allowances)

Hav Braham Lal Sharma (No. 3986399H now JC-520890P),
30 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dilaber Singh (No. 3986735K now JC-520891X),
16 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bhuvnesh Kumar (No. 3987365F now JC-520892),
03 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Chand (No. 3986274L now JC-520893),
25 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 04 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ranjit Singh (No. 3986127H now JC-520894L),
03 Nov 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dharam Chand (No. 3987345N now JC-520895N),
03 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Mohinder Singh (No. 3987050X now JC-520896W),
13 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Desh Raj (No. 3984803N now JC-520897Y), 13 Oct
2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Dewarka Nath (No. 3986404H now JC-520898F), 08
Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Pawan Kumar (No. 3989190H now JC-520899K),
08 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Arvind Singh (No. 3986299X now JC-520900N),
25 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Naresh Kumar (No. 3986303P now JC-520901W),
25 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Kewal Krishan (No. 3986384A now JC-520902Y),
25 Oct 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sham Lal (No. 3987372X now JC-520903F), 26 Sep
2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Gyan Chand (No. 3986393F now JC-520904K), 25 Oct
2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Ramesh Chandra (No. 3988720A now JC-
520905M), 30 Aug 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk) Narayan Patro (No. 3988724W now JC-520906P),
01 Nov 2008+

Hav (Clk) Joshi Surti Ram Ranveer (No. 15359548N now
JC-520907X), 10 Nov 2008+

+(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

THE RAJPUT REGIMENT

To be Nb Subedar

Hav Clk Pramod Kumar (No. 2986082X now JC-480285W),
01 Oct 2008

Hav Clk Man Mohan Singh (No. 2986024N now JC-
480286Y), 20 Oct 2008/01 Oct 2008

Hav Sanjiv Kumar (No. 2997276A now JC-480287F),
19 Sep 2008

Hav Rakesh Singh Tomar (No. 2988718M now JC-
480288K), 21 Sep 2008

Hav Jagvir Singh (No. 2984716K now JC-480289M),
01 Oct 2008

Hav Mahendra Kumar Singh (No. 2987477L now JC-480290F), 01 Oct 2008

Hav Bhairu Singh Chauhan (No. 2986166L now JC-480291K), 01 Oct 2008

Hav Nahar Singh (No. 2988583W now JC-480292M),
01 Oct 2008

Hav Ram Kishan Gurjar (No. 2989298K now JC-480293P),
01 Oct 2008

Hav Shephudin (No. 2985272X now JC-480294X), 01 Oct
2008

Hav Birendra Bahadur Singh (No. 2985906H now JC-480295A), 01 Oct 2008

Hav Udaivir Singh (No. 2992420A now JC-480296H),
01 Oct 2008

Hav Parvesh Singh (No. 2985661X now JC-480297L),
01 Oct 2008

Hav Man Singh (No. 2986070H now JC-480298N), 01 Oct
2008

Hav Sube Singh (No. 2985887H now JC-480299W),
01 Oct 2008

Hav Sunil Kumar Singh (No. 2986654N now JC-480300A),
01 Oct 2008

Hav Ram Kishor Gurjar (No. 2987338F now JC-480301H),
01 Oct 2008

Hav Vinod Kumar (No. 2987546W now JC-480302L),
01 Oct 2008

Hav Ram Swaroop Gocher (No. 2987328X now JC-480303N), 01 Oct 2008

Hav Ram Baran Singh (No. 2987419F now JC-480304W),
01 Oct 2008

Hav Jagmal Singh (No. 2987424M now JC-480305Y),
01 Oct 2008

Hav Raj Pal Singh (No. 2987440K now JC-480306F),
01 Oct 2008

Hav Ajaya Kumar Singh (No. 2987644W now JC-480307K),
01 Oct 2008

Hav Mahinder Singh (No. 2985328Y now JC-480308M),
01 Oct 2008

Hav Ramesh Chander (No. 2986757M now JC-480309P),
01 Oct 2008

Hav Sri Ramesh Singh (No. 2986951F now JC-480310K),
01 Oct 2008

Hav Jaivir Singh (No. 2987013N now JC-480311M),
01 Oct 2008

Hav Jay Pal Singh (No. 2987690L now JC-480312P),
01 Oct 2008

Hav Brij Bhan Singh (No. 2988928M now JC-480313X),
01 Oct 2008

Hav Ajuddin Ansari (No. 2991850X now JC-480314A),
01 Oct 2008

Hav Yashendra Singh (No. 2986523H now JC-480315H),
01 Oct 2008

Hav Rahim Bax (No. 2985285P now JC-480316L), 01 Oct
2008

Hav Ram Singh (No. 2986837K now JC-480317N), 01 Oct
2008

Hav Sheetla Prasad Tiwari (No. 2991278P now JC-480318W), 01 Oct 2008

Hav Vijay Pal Singh (No. 2989928W now JC-480319Y),
01 Nov 2008

Hav Desh Raj (No. 2984290N now JC-480320N), 01 Nov
2008

Hav Ramesh Singh (No. 2984946X now JC-480321W),
01 Nov 2008

Hav Lakhan Singh (No. 2986917F now JC-480322Y),
01 Nov 2008

Hav Ajay Kumar (No. 2988196F now JC-480323F), 01 Nov
2008

Hav Mahendra Pal Singh (No. 2985758H now JC-480324K), 01 Nov 2008

Hav Lalak Kishor Singh (No. 2988202K now JC-480325M),
01 Nov 2008

Hav Pawan Kumar Singh (No. 2986761P now JC-480326P),
01 Nov 2008

Hav Pramod Kumar Singh (No. 2985035N now JC-480327X), 01 Nov 2008

Hav Pawan Kumar (No. 8032399N now JC-480328A),
01 Nov 2008

Hav Suram Singh Rana (No. 2986531F now JC-480329H),
01 Nov 2008

Hav Rajbir Singh (No. 2985767K now JC-480330X),
01 Nov 2008

THE JAT REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Mahendra Singh Suhag (No. 3181633H now JC-490355X), 04 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 18 May
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Gopal Singh Adhikari (No. 3180191H now JC-490356A), 14 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul
2008 without effect on pay and allowances)

Hav Narendra Singh (No. 3182485P now JC-490357H),
04 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jaivir Singh Verma (No. 3183148M now JC-490358I),
24 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Munna Singh (No. 3180224H now JC-490359N),
14 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 16 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhvir Singh (No. 3181279Y now JC-490360H),
14 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Ranveer Singh (No. 3180298X now JC-490361L),
13 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bhagwan Singh (No. 3181845N now JC-490362N),
14 Sep 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Girdhari Lal (No. 3182954M now JC-490363W),
30 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 04 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Hoshiar Singh (No. 3176052F now JC-490364Y),
08 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Karan Singh (No. 3177350K now JC-490365F),
08 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Nabab Singh (No. 3180440W now JC-490366K),
01 Oct 2008

Hav Ashok Kumar (No. 3180408F now JC-490367M),
10 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Mahyander Singh (No. 3182487A now JC-490368P),
01 Oct 2008

Hav Suresh Singh (No. 3182505X now JC-490369X),
01 Oct 2008

Hav Pawan Kumar (No. 3180669P now JC-490370M),
17 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Rambir (No. 3191306L now JC-490371P), 05 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Bhanwar Lal (No. 3182970K now JC-490372X),
01 Oct 2008

Hav Asu Ram (No. 4071795F now JC-490373A), 05 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Surender Singh (No. 13617538P now JC-490374H),
01 Oct 2008

Hav Rajbir Singh (No. 3184724X now JC-490375L), 12 Oct 2008

Hav Satish Kumar (No. 3184798M now JC-490376N),
20 Oct 2008

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 13 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Munish Kumar (No. 3182712K now JC-490377W),
01 Nov 2008

Hav Satish Kumar (No. 3181083L now JC-490378Y),
01 Nov 2008

Hav Rakesh (No. 3180813Y now JC-490379F), 01 Nov 2008

Hav Ram Gopal Singh (No. 3184799P now JC-490380W),
01 Nov 2008

Hav Jagjit Singh (No. 3185108K now JC-490381Y), 03 Nov 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Jai Karan (No. 3178834W now JC-490382F), 11 Nov 2008

To be Nb Sub (Clk)

Hav Clk Ved Parkash Yadav (No. 3179221H now JC-490383K), 13 Oct 2008*

*(Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Clk Virender Kumar (No. 3179379L now JC-490384M),
01 Oct 2008

THE SIKH REGIMENT

To be Nb Sub

Hav Sukhwinder Singh (No. 3389621M now JC-500077L),
14 Nov 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Kawaljit Singh (No. 3387265Y now JC-500078N),
25 Oct 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Harjinder Singh (No. 3388262X now JC-500079W),
12 Oct 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhpal Singh (No. 3388793P now JC-500080L),
10 Oct 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Sukhwinder Singh (No. 3388406P now JC-500081N),
26 Oct 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Kulwant Singh (No. 3389525X now JC-500082W),
20 Oct 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Aug 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Gurdial Singh (No. 3387028P now JC-500083Y),
25 Oct 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
03 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Avtar Singh (No. 3388531Y now JC-500084F), 21 Nov
2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
20 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav Malkit Singh (No. 3389492X now JC-500085K),
01 Nov 2008

Hav Sewak Singh (No. 3392603P now JC-500086M),
12 Nov 2008*

*(Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef
01 Nov 2008 without effect on pay and allowances)

JAK RIF

To be Substantive Nb Sub (GD)

Hav Balvinder Singh (No. 13752981W now JC-580782P),
01 Jun 2008*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub without effect
on pay and allowances wef 29 Jun 2008)

Hav Angrez Singh (No. 13750056P now JC-580783X),
01 Sep 2008

Hav Ram Dass (No. 13750294F now JC-580788W), 01 Oct
2008

Hav Padham Singh (No. 13754290H now JC-580789Y),
01 Oct 2008

To be Substantive Nb Sub Ck (GD)

Hav Ck Manohar Singh Thakur (No. 13750649F now JC-
580777K), 01 Oct 2008*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub without
effect on pay and allowances wef 01 Dec 2006)

Hav Ck Ashok Kumar Gangotia (No. 13750865P now JC-
580778M), 01 Oct 2008*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub without
effect on pay and allowances wef 01 Dec 2006)

Hav Ck Chaman Lal (No. 13750871H now JC-580779P),
01 Oct 2008*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub without
effect on pay and allowances wef 01 Dec 2006)

Hav Ck Nariender Singh (No. 13750921H now JC-
580780K), 01 Oct 2008*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub without
effect on pay and allowances wef 01 Dec 2006)

Hav Ck Mohd Iqbal Nawjar (No. 13751095A now JC-
580781M), 01 Oct 2008*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub without
effect on pay and allowances wef 01 Dec 2006)

Hav Ck Raj Rishi Suhag (No. 13751771K now JC-
580784A), 01 Oct 2008*

*(Granted notional seniority in the rank of Nb Sub without
effect on pay and allowances wef 04 Oct 2008)

Hav Ck Ram Kumar Singh (No. 13751776H now JC-
580785H), 01 Oct 2008

Hav Ck Surya Prakash Bhawsar (No. 13751841X now JC-
580786L), 01 Oct 2008

Hav Ck Deda Ram Choudhary (No. 13751991N now JC-
580787N), 01 Oct 2008

THE GRENADIERS

To be Nb Sub

Hav Vipin Kumar (No. 2680674M now JC-450568H),
26 Mar 2008

Hav Satya Narayan (No. 2681573L now JC-450569L),
03 Aug 2008

Hav Ram Niwas Meena (No. 2677898F now JC-450570A),
13 Aug 2008

To be Nb Sub (Cik)

Hav Sri Niwas Singh (No. 2681320W now JC-450571H),
24 Aug 2008

Hav L. Venkata Chalam (No. 2682105X now JC-450573N),
01 May 2008

Hav Vijay Singh (No. 2680312L now JC-450572L), 01 Sep
2008

J ROY CHOWDHURY
Under Secy.